

## चैपयिन ऑफ चेंज हरयाणा-2021 पुरस्कार

### चर्चा में क्यों?

5 अक्टूबर, 2022 को हरयाणा जनसंपर्क वभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में आयोजित 'चैपयिन ऑफ चेंज हरयाणा-2021' कार्यक्रम में हरयाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 'चैपयिन ऑफ चेंज हरयाणा-2021 पुरस्कार' प्रदान किया गया है।

### प्रमुख बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली चयन समिति की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मनोहर लाल हरयाणा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें यह गौरव मिला है।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पछिले आठ वर्षों में सुशासन के माध्यम से हरयाणा की कार्यप्रणाली व प्रशासनिक दक्षता की तस्वीर बदलने के लिये किये गए प्रयासों पर ही चैपयिन ऑफ चेंज हरयाणा-2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- विश्व में बड़े बदलाव प्रेरक के रूप में वख्यात राष्ट्रपति महात्मा गाँधी व दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय नेल्सन मंडेला के नाम पर गठित गाँधी-मंडेला फाउंडेशन व बदलाव के लिये राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कार देने वाली संस्था इंटरएक्टिवि फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया गया।
- ज्ञातव्य है कि इंटरएक्टिवि फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी नामक संस्था अगले वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 'ग्लोबल चैपयिन ऑफ चेंज' कार्यक्रम का भी आयोजन करने जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि संस्था का यह 5वाँ संस्करण था, जिसमें मुख्यमंत्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव के प्रेरक बने 25 अन्य व्यक्तियों को चैपयिन ऑफ चेंज हरयाणा-2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- पहला संस्करण 26 दिसंबर, 2018 को वजिज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा यह पुरस्कार मणपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सहि को दिया गया था। इसी प्रकार दूसरे संस्करण में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को; तीसरे संस्करण में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक तथा तमलिनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालनि को जबकि चौथे संस्करण में 30 सितंबर, 2021 को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटलि को सम्मानित किया गया था।
- चयन समिति अपनी प्रक्रिया के तहत 6 महीने की अवधि में लोगों से फीडबैक के आधार पर पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित करती है और फरि चयन समिति के सदस्य आवेदनों का आकलन करते हैं और संस्थानों को चयनित नाम भेजते हैं।
- गाँधी-मंडेला अवार्ड के लिये चयन समिति के सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ. के.जी. बालाकृष्णन, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा, नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केदारनाथ उपाध्याय, बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद तफज्जुल इस्लाम तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मशिरा शामिल हैं।